



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941-सितम्बर 17, 2019  
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 11, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9861** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Mandalgarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Mandalgarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,

**Joint Secretary to Governmen**

कार्यालय नगर पालिका माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा

प्रपत्र - "क"

वार्ड नंबर	वार्ड की सीमा का विवरण
1	बलवन्त नागौरी के मकान से प्रारम्भ होकर ब्रम्हपुरी की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुये हरिजन बस्ती, बी.एस.एन.एल. ऑफिस. पी.एच.ई.डी. कार्यालय ईदगाह से माणिक्य नगर आवासीय योजना की समस्त आबादी, पुलिस थाने के आस पास की आबादी को लेते हुये हाई स्कूल के पीछे की सम्पूर्ण आबादी को लेकर अहिंसा सर्किल पर मोहन जी पटवा के मकान को लेकर गोविन्द ब्रम्हभट्ट के मकान पर समाप्त
2	चारभुजा मन्दिर से प्रारम्भ होकर रफक बेग के मकान से सिन्धी कालोनी की समस्त आबादी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से होते हुये पंचायत समिति क्वाटर होते हुये वकील कालोनी की समस्त आबादी को लेते हुये भैरू सुनार के मकान पर समाप्त
3	चेतन जी पुरोहित के पीछे की आबादी आबादी को लेते हुये गणेश भट्ट के मकान से राधा कृष्ण कालोनी की समस्त आबादी को लेकर गणेश धाकड के मकान के आस पास की समस्त आबादी व नरेश सिन्धी के मकान से मुडकर कोई रोड़ पर गोवर्धन जी झंवर के मकान से आगे की समस्त आबादी को लेकर जैल भवन से डाक बंगला से 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन की आबादी को लेकर समाप्त
4	कोतवाल का खेड़ा मे मोती बावजी से चारभुजा मन्दिर व खाती मोहल्ला, रेबारी मोहल्ला की समस्त आबादी को लेकर वेयर हाउस से कंजर बस्ती की समस्त आबादी समाप्त

5	रेल्वे स्टेशन पर रेल्वे कालोनी की समस्त आबादी बालाजी मन्दिर के रास्ते से होते हुये सत्यनारायण जीनगर की दुकान से होकर खान सा. के मकान से आगे सुरेश खटीक के मकान से होकर जापरपुरा की समस्त आबादी को लेते हुये मण्डी के पास माल का झोपड़ा को लेकर मण्डी के पास बलाईयों के मकानों पर संग्राम बलाई के मकान से भोलू बलाई के मकान से होकर गोरू बलाई के मकान से कृषि मण्डी पर समाप्त
6	मण्डी के पास मनोहर तेली के मकान से नन्द लाल तेली के मकान व बलाई बस्ती की सम्पूर्ण आबादी को लेकर रात्या खेड़ा की सम्पूर्ण आबादी को लेकर हाडा फार्म पर होते हुये भारजी का खेड़ा की सम्पूर्ण आबादी को लेकर दीप शक्ति पेट्रोल पम्प पर समाप्त
7	अम्बेडकर भवन से प्रारम्भ होकर कोर्ट के पास राजकीय आवास से ओफिसर कालोनी पर होकर चैराहे पर पी.एच.ई.डी. कार्यालय एवं बी.के.वी.एस.एस. कार्यालय पर होकर बस स्टेण्ड रोड़ की समस्त आबादी को लेकर लक्ष्मीपुरा मे गणपत व्यास के मकान पर से होकर देबी लाल टेलर के मकान से होते हुये पटवार घर से लेकर गणोली रोड़ पर डपोला(नायक बस्ती) मे महेन्द्र कोली के मकान से कल्याण नायक से होते हुये छीतर नायक से गोपाल नायक से हनुमान मन्दिर, पुरुषोत्तम वैष्णव से प्यार चन्द छीपा, घीसु लाल माली के मकान को लेकर बडी तलहटी की समस्त आबादी को लेकर समाप्त
8	लक्ष्मीपुरा मे रामस्वरूप टेलर के मकान से समस्त छीपा मोहल्ला गायत्री मन्दिर से छोटा बोलपुरिया से पुराना जंगलात के आसपास की आबादी को लेकर बडा बोलपुरिया की समस्त आबादी को लेकर रामदेव जी के मन्दिर से आगे होते हुये मोहन रेगर के मकान के आस पास की आबादी को लेकर गणोली रोड़ से मुडकर राजीव गांधी पाठशाला तक को लेते हुये गणोली रोड़ की समस्त आबादी को लेकर समाप्त
9	वाटर वक्रस के कुए से नाथू सिंह दरोगा के मकान से होते हुये केदार जी असावा के मकान पर होकर समस्त सोमाणी मोहल्ला से पुलिस चौकी से होते हुये मैथी जी मन्दिर से होकर केवड़ा बावडी की गली से तकिया मस्जिद की समस्त आबादी को लेकर समाप्त
10	छोगा लाल माली से प्रारम्भ होकर पंचमुखी बालाजी से होकर हरिसिंह दरोगा के मकान से गट्याणी मोहल्ला से भाग चन्द शाह के मकान से खटीक मोहल्ले की समस्त आबादी को लेकर पुराने पोस्ट आफिस से बिरजु दरोगा के मकान से होते हुये शिव लाल लखारा के मकान पर समाप्त
11	हरिजन बस्ती को लेकर सरवाडीयों के मकान से होते हुये लियाकत मेवाती के मकान पर होकर राजेन्द्र मारु के मकान से होते हुये पटवा गली की समस्त आबादी को लेकर शान्ति लाल बापना के मकान से होते हुये बृज मोहन सारस्वत के मकान के आस पास की आबादी को लेकर समाप्त
12	किला रोड़ से होकर नन्द सिंह खटोड के मकान से मोड के बालाजी से होकर गांधी चौक खटोड गली गणेश चौक मिडिल स्कूल के सामने हेण्ड पम्प के पास डिस्पेन्सरी रोड़ जैन मन्दिर भण्डारियों का मकानो से तम्बोली के मकानो पर होते हुये मेन बाजार मे नाईयों की गली पर समाप्त

13	बंशी लाल ओझा के मकान प्रारम्भ होकर मुख्य बाजार से होकर भट्टो की गली श्रोत्रीय मोहल्ला वैष्णव स्वीट्स के सामने पुराने पोस्ट ऑफिस बलाईयों का मन्दिर के आस पास की आबादी को लेते हुये बापु लाल भण्डारी की दुकान से बापु लाल भण्डारी की दुकान से होकर नन्द लाल सुनुार के मकान के आसपास की आबादी को लेकर भाटो के मन्दिर की गली की समस्त आबादी को लेते हुये और सदर बाजार की समस्त आबादी को लेते हुये मदन जी जीनगर की समस्त आबादी को लेकर सदर बाजार मे होते हुये प्रताप लाल तेली के मकान के पास की आबादी को लेकर समाप्त
14	बालिका स्कूल के सामने किला रोड़ की समस्त आबादी को लेकर शेखों की गली व उस्तो की गली के पास की आबादी को लेकर समाप्त
15	मस्जिद के सामने तेल घाणे के पास उपर ढोली व धोबी मोहल्ला की समस्त आबादी व मेन रोड़ पर भुरा लाल सेन की समस्त आबादी को लेकर तालाब के सामने की समस्त आबादी को लेकर श्याम लाल कुम्हार के पास दरोगा के मकान से होते हुये बस स्टेण्ड के सामने के समस्त आबादी को लेते हुये दोलतराम खत्री के मकान पर समाप्त
16	छोटू लाल हरिजन के मकान से प्रारम्भ होकर हरिजन बस्ती के आस पास की समस्त आबादी को लेते हुये नन्द सिंह खटौड की दुकान के आसपास की आबादी को लेकर प्रेम जी शाह के मकान से प्रारम्भ होकर मेन रोड़ से महावीर सुथार की दुकान के पीछे की समस्त आबादी को लेकर बालाजी मन्दिर से लेकर जान मोहम्मद के मकान के आसपास की आबादी को लेकर पुराने दूरसंचार विभाग के आस पास की समस्त आबादी को लेकर समाप्त
17	जुल्फकार सिलावट से प्रारम्भ होकर रतन धोबी के मकान के आस पास की सम्पूर्ण आबादी को लेकर मदरसा सलावटान की आस पास की आबादी को लेते हुये बंशीदास के मकान पर समाप्त
18	सत्तार जी सिलावट के मकान से प्रारम्भ होकर मुनीर सिलावट के मकान लाईन व पीछे की समस्त आबादी व गॅफूर जी नेब के मकान की लाईन मस्जिद चैक के आस पास की सम्पूर्ण आबादी, को लेकर मेन सड़क पर मुनीर खॉ बोकड़ा के मकान पर समाप्त
19	आरीफ चैहान के मकान से प्रारम्भ होकर उसके पीछे की समस्त आबादी दुर्गा लाल सेन के मकान के आस पास की समस्त आबादी, गुर्जर मोहल्ला की समस्त आबादी को लेकर श्याम लाल गुर्जर के मकान पर समाप्त
20	जगन्नाथ जी दरोगा के मकान से प्रारम्भ होकर दरोगा मोहल्ला की समस्त आबादी, समुन्द्र सिंह लोढा के मकान से उदय लाल दरोगा के मकान व सिंचाई विभाग रोड़ के आस पास की समस्त आबादी, कमला भवन के पीछे की समस्त आबादी, गौतम सिंह जी के मकान के आस पास की समस्त आबादी को लेकर जिनेन्द्र नागौरी के मकान से होकर भंवर जी नागौरी के पीछे की समस्त आबादी को लेकर समाप्त

अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका, माण्डलगढ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।